

एक लाख ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ने का नया कीर्तिमान स्थापित किया

भारत की प्रमुख परियोजना, भारत नेट चरण-1 ने उच्च गति ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ देश भर में एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया। इस परियोजना में 2.5 लाख से अधिक गांवों में एक सस्ती कीमत पर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की परिकल्पना की गई है।

दूरसंचार विभाग ने प्रमुख निर्वाहक और हितधारकों की घोषणा की जिन्होंने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भारत सरकार के आवास केंद्र, नई दिल्ली में दिनांक 08.01.2018 को आयोजित एक समारोह में श्री मनोज सिन्हा, माननीय केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री ने आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री एस.गोपू को सम्मानित किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत नेट चरण-1 के उपकरण आपूर्तिकर्ता हेतु आईटीआई लिमिटेड को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय संचार मंत्री, श्री मनोज सिन्हा ने भारत नेट को दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना के रूप में वर्णित किया है जो आने वाले दिनों में देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

इस अवसर पर दूरसंचार विभाग के सचिव, सुश्री अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि इस परियोजना ने प्रति दिन 800 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का वैश्विक रिकॉर्ड हासिल किया है और उम्मीद है कि ग्रामीण गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, कौशल, ई-कृषि और ई-वाणिज्य जैसे सेवाओं के डिजिटल वितरण का उत्प्रेरित होगा। दूरसंचार विभाग और आईटीआई लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री के अलागेसन, निदेशक-उत्पादन और विपणन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।



श्री एस.गोप्, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई लिमिटेड ने माननीय केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री से प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया । फोटो में सुश्री अरूणा सुंदरराजन, भारत सरकार, दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष और दूरसंचार विभाग के सचिव और आईटीआई लिमिटेड के श्री के. अलागेसन, निदेशक-उत्पादन और विपणन भी शामिल हैं ।

